

Manual to raise Objections / आपत्ति दर्ज करने की नियमावली

Response Tab / प्रतिक्रिया टैब-



अपनी प्रतिक्रिया देखने के लिए यहां क्लिक करें

Click here to view your Response

To download your question paper for Assessment AIIMS JODHPUR 10th July 2017 of subject Chief Cashier. Click [here](#) to generate it

- 1) In this tab you can see only question paper with your response and correct answer.
इस टैब में आप अपनी प्रतिक्रिया और सही उत्तर के साथ केवल प्रश्नपत्र देख सकते हैं।
- 2) Before raising objection, check the question and answers carefully.
आपत्ति दर्ज करने से पहले सवाल और जवाबों की सावधानीपूर्वक जाँच करें।

Objection Tab/ आपत्ति टैब-

The screenshot shows the 'Objection' tab in a software interface. At the top, there are two tabs: 'Response' and 'Objection', with 'Objection' highlighted and circled in red. Below the tabs, the page title is 'Objection'. On the right side, there are two buttons: 'Click to raise new Objection' and 'Click to Refresh'. A red arrow points from the text 'Click here to raise Objection' to the 'Click to raise new Objection' button. Below the buttons, there is a table with columns 'Action' and 'Application Seq No'. The table contains one row with a search icon in the 'Action' column and the value 'null000041' in the 'Application Seq No' column. A red arrow points from the text 'Here you can see your objections' to the value in the table. Below the table, there is a red text box that says 'यहां आप अपनी आपत्ति देख सकते हैं'. Another red arrow points from the text 'Refresh के लिए यहां क्लिक करें' to the 'Click to Refresh' button, and another red arrow points from the text 'Click here to refresh' to the same button.

- 1) You can raise objection only in **Objection Tab**, before the last date. (No objections will be entertained by post, email, phone call or in person.)
आप केवल ऑब्जेक्शन टैब के द्वारा, अपनी आपत्ति, अंतिम तिथि तक ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति की कोई भी सूचना - पत्र, ईमेल, फोन अथवा एम्स में व्यक्तिगत आने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 2) Kindly click on to “click to raise new Objection” to raise an objection.
कृपया आपत्ति दर्ज करने के लिए " click to raise new Objection " पर क्लिक करें।
- 3) You can raise objections for 5 question at a time.
आप एक बार में 5 प्रश्नों के लिए आपत्ति उठा सकते हैं।
- 4) To raise objections for more than 5 questions please click on to “click to raise new Objection” again.
5 से अधिक प्रश्नों के लिए आपत्तियां दर्ज करने के लिए कृपया " click to raise new Objection " पर फिर से क्लिक करें।
- 5) Click on “Click to refresh” button to see objections raise by you in “Your Selection” page.
“Your Selection" पृष्ठ में आपके द्वारा दर्ज गए आपत्तियों को देखने के लिए" Click to refresh " बटन पर क्लिक करें।

On clicking "Click to raise new Objection"/ "आपत्ति उठाने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करने पर

Objection Details

Post *
Chief Cashier

Date of Exam *
07/10/2017

Question ID *
Select Question ID

Nature of Objection *
--Select--
--Select--
Incorrect / ambiguous question/गलत / अस्पष्ट प्रश्न
All options incorrect/सभी विकल्प गलत
Multiple correct answers/एक से अधिक सही उत्तर
Incorrect answer key/गलत उत्तर कुंजी

Remarks *
Enter Remarks

Upload the documents that refer and justify your objection *
Click here to upload

Payment mode * Online

Amount *
2.00

Submit

यहां से सवाल आईडी चुने। कृपया प्रतिक्रिया पत्र / टैब से सवाल आईडी नोट करें

Select Question ID from here. Kindly note Question ID from response sheet/tab

Select nature of Objection from here यहां से आपत्ति की प्रकृति का चयन करें

यहां आपत्ति के लिए कारण दर्ज करें

Enter here reason for objection.

आपत्ति के लिए समर्थन दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Click here to upload supporting document for objection

Select this for payment भुगतान के लिए इसका चयन करें

भुगतान विवरण भरने के लिए यहां क्लिक करें और फिर आपत्ति सबमिट करें

Click here to fill payment details and then to submit objection

- 1) Kindly note down question ID of each question which is mentioned in right side of the question to raise your objection.
कृपया प्रत्येक सवाल का सवाल आईडी नीचे नोट करें जो कि आपके आपत्ति को दर्ज करने के लिए प्रश्न के दाईं ओर वर्णित है।
- 2) Select Nature of Objection
आपत्ति की प्रकृति का चयन करें

- 3) In the remarks column, enter your reason for objection clearly. Objections with no valid explanation or reference will not be taken into account and will be discarded.
‘रिमार्क कॉलम’ में, अपनी आपत्ति के कारण स्पष्टता से लिखें। बिना किसी टिप्पणी या संदर्भ वाली आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4) Before submission of Objection it is mandatory for candidate to upload supporting document. / आपत्ति सबमिट करने से पहले उम्मीदवार को समर्थन दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है।
- 5) Maximum 3 supporting documents can be uploaded for an objection or question / एक आपत्ति या प्रश्न के लिए अधिकतम 03 समर्थन दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं।
Supporting document of maximum size of 400kb should be in PDF / JPG / JPEG format.
400kb का अधिकतम आकार का समर्थन दस्तावेज पीडीएफ/ जेपीजी/ जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए।
- 6) There is ₹ 100 fee for each objection mandatory for all candidates.
प्रत्येक आपत्ति के लिए ₹ 100 का शुल्क है। यह शुल्क सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।